

मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक: 23.01.2023

फ्लिपकार्ट डिलेवरी ब्वाँय द्वारा सामानों की हेराफेरी कर की गयी लाखों की सामानों की चोरी का पर्दाफाश, कब्जे से ओरिजिनल मोबाइल, सैमसंग व एप्पल कम्पनी की वॉच सहित अन्य सामान बरामद —

थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर पर दिनांक:21.01.2023 को फ्लिपकार्ट डिलेवरी कम्पनी ई-कार्ट सर्विस नटवां रोड मीरजापुर ब्रांच मैनेजर- अनुपम गुप्ता पुत्र बलराम दास गुप्ता निवासी नकहरा रोड नई बस्ती थाना को0कटरा मीरजापुर द्वारा फ्लिपकार्ट कम्पनी में कार्य करने वाले डिलेवरी ब्वाँय के विरुद्ध बावत डिलेवरी हेतु लाखों रुपये की सामान ब्रांच से ले जाकर सप्लाई के उपरान्त कुछ सामानों को रिटर्न किया गया, जिसे ब्रांच में चेक करने पर सभी सामान डुप्लीकेट कम्पनी के पाये गये, के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। जिसके आधार पर थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-16/2023 धारा 419,420,421,467,407,381 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक को0कटरा को यथाशीघ्र अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0कटरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आज दिनांक:23.01.2023 को थाना को0कटरा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग की विवेचना में कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त अनश पुत्र जमीरुद्दीन उर्फ मंगरु सेठ निवासी स्टेट बैंक चौराहा थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर को थाना को0कटरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से फ्लिपकार्ट कम्पनी का डिलेवरी हेतु दिया गया ओरिजिनल माल 03 अदद APPLE AIR PODE, 01 अदद APPLE WATCH, 01 अदद SAMSUNG WATCH, 01 अदद मोबाइल फोन SAMSUNG GALLAXY A73 व 03 अदद चार्जर केबल(कीमत करीब ₹ 01.87 लाख) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ— गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसके द्वारा 3-4 अलग-अलग मोबाइल नम्बरों का प्रयोग कर फ्लिपकार्ट अकाउण्ट बनाया गया था जिससे कीमती सामानों का आर्डर किया गया तथा ब्रांच से डिलेवरी ब्वाँय होने के कारण प्रतिदिन की भांति स्वयं डिलेवरी हेतु सामानों की सप्लाई की गयी। इसी दौरान आर्डर की गयी कम्पनी की ओरिजिनल सामानों को पैक से निकालकर उसके स्थान पर डुप्लीकेट सामान तथा एक सामान के स्थान पर गिट्टी भरकर पैक कर पुनः ले जाकर वापस कर दिया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

अनश पुत्र जमीरुद्दीन उर्फ मंगरु सेठ निवासी स्टेट बैंक चौराहा थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-38 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

01 अदद मोबाइल SAMSUNG GALAXY A 73.

03 अदद APPLE AIR PODE.

01 अदद APPLE WATCH व 01 अदद SAMSUNG WATCH व 3 अदद चार्जर केबल

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-16/2023 धारा 419,420,421,467,407,381,411 भादवि थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उ0नि0 कुमार संतोष चौकी प्रभारी नटवां थाना को0कटरा मय पुलिस टीम ।

उ0नि0 संतोष कुमार सिंह चौकी प्रभारी लालडिग्गी थाना को0कटरा मय पुलिस टीम ।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा पुलिस टीम को ₹ 10 हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया ।

